

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र में 'हिंदी टिप्पण/आलेखन एवं सरल शब्दों के प्रयोग' पर राजभाषा प्रशिक्षण कार्यशाला

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में दिनांक 04 मई, 2018 को 11 बजे 'हिंदी टिप्पण/आलेखन एवं सरल शब्दों के प्रयोग' विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राज्य इकाई, राजस्थान कार्यालय एवं पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय में हाल ही में नवनियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री अतुल कुमार अग्निहोत्री, अनुवादक ने मंच संचालन करते हुए बताया कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला की जाती है जिसमें पदाधिकारियों के हिंदी ज्ञान एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन किया जाता है।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन उपमहानिदेशक एवं संप्रति विभागाध्यक्ष श्री आर एस गर्खाल की ओर से श्री सुरेश चंदर, निदेशक एवं राजभाषा अधिकारी, राज्य इकाई- राजस्थान ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पी चार्ल्स डी मोनी, निदेशक एवं राजभाषा अधिकारी, पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय ने की और उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि हिंदी में सरकारी कामकाज करना बहुत सरल है, हमें सिर्फ आरंभ करने का संकल्प लेना होगा एवं उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की हिंदी कार्यशाला से सभी प्रतिभागीगण कुछ नया सीखेंगे एवं हिंदी में कार्य के प्रति उनकी झिझक दूर होगी। इस अवसर पर दूरदर्शन विभाग से आमंत्रित अतिथि वक्ता श्री नारायण लाल शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने सरल और सहज शब्दों के प्रयोग एवं श्री डालचंद, सहायक निदेशक (राजभाषा), जीएसआई जयपुर ने हिंदी टिप्पण एवं आलेखन पर व्याख्यान दिए। सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों एवं जिज्ञासाओं पर व्यावहारिक संवाद किया। सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

कार्यशाला की प्रमुख झलकियां इस प्रकार हैं :-



